

## **प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गयी एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के सम्बन्ध में शस्त्र व अभ्यास कराकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये

आज दिनांक 06-01-2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई तथा परेड ग्राउंड में उपस्थित समस्त अधि0/कर्मचारीगण को दंगा नियंत्रण उपकरणों के सम्बन्ध में शस्त्र व अभ्यास कराकर, उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्ड रजिस्ट्रों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के संबंध में सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन अखिलेश वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

### **प्रेस नोट - दिनांक- 06.01.2023 थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा 25-25 हजार रु0 के इनामिया गैंगस्टर एक्ट से संबन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व जय राम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 06.01.2023 को पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ द्वारा थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 478/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट व मु0अ0सं0 02/2023 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण को क्रमशः “गनेशपुर चौराहे, व वाणगंगा चौराहा थाना शोहरतगढ़” के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

01. सरजू पुत्र त्रियुगी साकिन बड़नी लाला कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
02. वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 भारत साकिन नीबी दोहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरजू-

01. मु0अ0सं0 28/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम
02. मु0अ0सं0 307/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम
03. मु0अ0सं0 478/22 धारा 3(1)यू0पी0गैंगस्टर एक्ट

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त वीरेन्द्र-

01. मु0अ0सं0 54/22 धारा 457,380,411 भादवि0
02. मु0अ0सं0 02/23 धारा 3(1)यू0पी0गैंगस्टर एक्ट

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. प्र0नि0 पंकज कुमार पाण्डेय, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 सभाजीत मिश्रा, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
03. आरक्षी अभिषेक यादव, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
04. आरक्षी आनन्द गुप्ता, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
05. आरक्षी पंकज कुमार, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।



**प्रेस नोट- दिनांक 6.1.2023 थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में हरीश चंद्र, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में व राहुल सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा के नेतृत्व में आज दिनांक 06-01-2023 को थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा मु०अ०सं 164/2022 धारा 363,366 भादवि० में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –**

01- सोनू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम पचहर थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01- उ०नि० राजकुमार चौधरी थाना गोलहौरा सिद्धार्थनगर ।

02- आरक्षी विशाल यादव थाना गोलहौरा सिद्धार्थनगर ।



प्रेस नोट दिनांक 06.01.2023 थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर

**थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 25-25 हजार ₹0 के इनामिया गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में आज दिनांक 06.01.2023 को दीपक कुमार, थानाध्यक्ष चिल्हिया द्वारा थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2022 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण को ग्राम परसिया स्थित पावर हाउस के सामने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

01.ज्ञान भारती पुत्र दुर्गा भारती निवासीगण पिपरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.मोहम्मद आलम पुत्र वसीर निवासीगण पिपरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01- दीपक कुमार थानाध्यक्ष चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. उ0नि0 संजीत सिंह थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

03-आरक्षी आलोक रंजन यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

04.आरक्षी रवि कुमार जायसवाल थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।



**प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023 थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 15000/-रु0 के इनामिया वांछित 01नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत” के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक भवानीगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 06.01.2023 को मु०अ०सं०129/2022 धारा 366/368/406/376 भा0द0वि0 व 3 (1)(द)/3(2)(5)/3(2)(5)ए एससीएसटी एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

01- इसरार पुत्र इकबाल निवासी बूढापार थाना शिवनगर डिड़ई जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01.उ0नि0 विनय यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.आरक्षी रितेश सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.आरक्षी घनश्याम सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।



## प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

**महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 06-01-2023को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04

पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है , 02 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह,म0 आ0प्रियम्बदा सिंह , म0आ0 अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का नाम1 शाहजहां पत्नी फिरोज अहमद सा0रामपसाद थाना व जनपद सिद्धार्थनगर। 2 कुसुम पत्नी अर्जुन तिवारी सा0महदेवा तिवारी थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

## प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

**सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 15,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।**

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 91/2016 मु.अ.सं. 208/2016 धारा 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना त्रिलोकपुर से सम्बन्धित आरोपी राम अभिलाष पाण्डेय को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राम अभिलाष पाण्डेय पुत्र सूर्यदेव पाण्डेय निवासी ग्राम कोदईजोत थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश श्री कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा 10 वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 राम भरत प्रसाद, थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा ।



## Meticulous Investigation & Conviction



आपरेशनशिकंजा

Siddharthnagar Police

**सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।**

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 91/2016 मु.अ.सं. 208/2016 धारा 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना त्रिलोकपुर से सम्बन्धित आरोपी राम अभिलाष पाण्डेय को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राम अभिलाष पाण्डेय पुत्र सूर्यदेव पाण्डेय निवासी ग्राम कोदईजोत थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश श्री कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा 10 वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 राम भरत प्रसाद, थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा।



राजेश कुमार त्रिपाठी  
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता



मु0आरक्षी राम भरत प्रसाद  
न्यायालय पैरोकार

### प्रेस नोट- थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 06.01.2023

**थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, दीपक कुमार, थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 06.01.2023 थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा वा0संख्या 250/22 धारा 323 भा0द0वि0 से संबंधित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

#### **गिरफ्तार वारंटी का विवरण -**

1. संजय पुत्र ईनल खरविंद निवासी ससान थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
2. ईनल खरविंद पुत्र स्व गद्वर खरविंद निवासी ससान थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
3. भैया उर्फ शिवपूजन पुत्र ईनल निवासी ससान थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

01. उ0नि0 राधेश्याम राय
02. काँ0 सुजय यादव



### **प्रेस नोट- थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 06.01.2023**

**थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, दीपक कुमार, थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 06.01.2023 थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा मु0अ0स0 09/18 धारा 363/366।pc व 7/8 पोक्सो एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

#### **गिरफ्तार वारंटी का विवरण-**

01. अमित कुमार उर्फ लाला पुत्र ठगे निवासी चौहटा थाना क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

01. उ0नि0 परवेज अहमद थाना चिल्हिया

02. काँ0 सच्चिदानंद मौर्य थाना चिल्हिया





### प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023 थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

थाना पथरा बाजार पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तो को लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत किया गिरफ्तार

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में राजेश तिवारी, प्रभारी निरीक्षक पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 02/2023 धारा 147/148/353/332/336/427/504/506 भा0द0वि0 तथा 07 CLA एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत वांछित 02 नफर अभियुक्तो को आज दिनांक 06/01/2023 को पथरा बाजार से गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 01.विवेक पुत्र लौटु साकिन मिश्राउलिया थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.अर्जुन पुत्र काशीराम कस्बा पथरा बाजार थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01- निरीक्षक दिनेश यादव अपराध थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 राघबेंद्र प्रताप यादव थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी वीरेंद्र प्रताप सिंह थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04.आरक्षी बृजेश यादव थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।



## प्रेस नोट दिनांक 06.01.2023 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

**थाना बांसी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 06.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह, के नेतृत्व में वाद संख्या 751/2022 वसूली वारण्ट भरण पोषण निर्वहन से सम्बन्धित 01 वारण्टी नरेश पुत्र रामनरायन निवासी तेलौरा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01- नरेश पुत्र रामनरायन निवासी तेलौरा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01- उ0नि0 नागेन्द्र सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

02-मु0 आरक्षी राजेन्द्र यादव थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट दिनांक 06-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।**

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना कपिलवस्तु पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 26 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 1,31,570/- ₹0 के राजस्व की प्राप्ति ।

**सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 421 वाहनों की नीलामी कर 56,54,330/-₹0 राजस्व प्राप्त किया गया ।**

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एकट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया । ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया । सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।

दिनांक 06.01.2023 को सन्त कुमार, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर, बिन्देश गुप्ता, नायब तहसीलदार, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना कपिलवस्तु में लम्बित माल मुकदमाती से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 26 वाहनों जिसमें 25 दोपहिया वाहन (मालमुकदमाती- 02, लावारिश- 02, एम0वी0 एकट में सीज – 21), 01 अदद मालमुकदमाती चार पहिया वाहन की नीलामी थाना कपिलवस्तु परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी । जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 1,31,570/-₹0 का राजस्व प्राप्त हुआ । जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा ।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, थाना सिद्धार्थनगर से 24 वाहन, खेसरहा से 13 वाहन, पथरा बाजार से 11 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन थाना इटवा से 02 वाहन, शिवनगर डिड़ई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 421 वाहनों की नीलामी से कुल 56,54,330/- रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है।





